

Roll No.

Total Printed Pages - 16

F - 108

M.Com. (Second Semester)
EXAMINATION, MAY-JUNE 2022
(Paper Eighth)
(TAX PLANNING AND MANAGEMENT)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks:80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all Sections as directed.

खण्ड - अ

Section - A

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

(प्रत्येक 1 अंक)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all questions.

[2]

1. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (cess) आरोप्य है-

- (A) आयकर
- (B) आयकर + अधिभार (लागू होने पर)
- (C) अधिभार
- (D) कुल आय

Health and education cess is leviable on-

- (A) Income Tax
- (B) Income Tax + Surcharge if applicable
- (C) Surcharge
- (D) Total income

2. करदाता जिसकी आय 3,83,494.90 राउण्ड ऑफ करने के पश्चात आय होगी:-

- (A) रु. 3,83,300
- (B) रु. 3,83,490
- (C) रु. 3,83,495
- (D) उपरोक्त कोई नहीं

The total income of the assessee has been computed at Rs. 3,83,494.90. For rounding off the total income will be taken as :

- (A) Rs. 3,83,300
- (B) Rs. 3,83,490
- (C) Rs. 3,83,495
- (D) None of above

P.T.O.

F - 108

[3]

3. A का कुल आय रु0 7,90,000 है कर निर्धारण वर्ष 2021-22 हेतु उक्त व्यक्ति का कर दायित्व धारा 115 BAC के अन्तर्गत होगा:

- (A) रु. 81,120
- (B) रु. 73,320
- (C) रु. 86,320
- (D) रु. 70,720

A total income for the assessment year 2021-22 is Rs. 7,90,000. His tax liability if he accesses option u/s. 115 BAC shall be-

- (A) Rs. 81,120
- (B) Rs. 73,320
- (C) Rs. 86,320
- (D) Rs. 70,720

4. करदाता जिन्होंने धारा 115 BAC नहीं चुना हो उन्हें धारा 80 E के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की कितनी छूट प्राप्त होगी:

- (A) रु. 25,000
- (B) रु. 40,000
- (C) रु. 1,00,000
- (D) कोई भी राशि

Where an assessee has not exercised option U/s. 115 BAC, the deduction U/s. 80E is allowed for payment by way of interest on loan to the extent of:

- (A) Rs. 25,000
- (B) Rs. 40,000
- (C) Rs. 1,00,000
- (D) Any amount

[4]

5. फर्म की दशा में अंकीय हस्ताक्षर इ-फाइलिंग के परिप्रेक्ष्य में-

- (A) आवश्यक
- (B) वैकल्पिक
- (C) जब अंकेक्षण हो तो यह आवश्यक है
- (D) इनमें से कोई नहीं

E-filing of return under digital signature in case of a firm is:

- (A) Mandatory
- (B) Optional
- (C) Mandatory only when its accounts are liable to be audited
- (D) None of above

6. सभी कर दाताओं के लिये अग्रिम कर चुकाना होता है:

- (A) 3 किश्तों में
- (B) 4 किश्तों में
- (C) प्रत्येक माह
- (D) वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में

All assessee has to make the payment of advance tax-

- (A) In 3 instalments
- (B) In 4 instalments
- (C) Every month
- (D) Every quarter of the financial year

[5]

7. करदाता द्वारा अग्रिम कर चुकाना आवश्यक होता है यदि अग्रिम कर की राशि वित्तीय वर्ष में :

- (A) रु. 5,000 से अधिक होने पर
- (B) रु. 10,000 से अधिक होने पर
- (C) रु. 10,000 या अधिक होने पर
- (D) रु. 15,000 से अधिक होने पर

The advance tax is payable by the assessee if the advance tax payable during the financial year:

- (A) Exceeds Rs. 5,000
- (B) Exceeds Rs. 10,000
- (C) is Rs. 10,000 or more
- (D) Exceeds Rs. 15,000

8. धारा 54GB के अन्तर्गत छूट उपलब्ध है:

- (A) कोई भी करदाता
- (B) व्यक्ति
- (C) व्यक्ति अथवा हिन्दू अ. परिवार
- (D) कोई भी करदाता व्यक्ति व HUF को छोड़कर

Exemption U/s. 54GB is available to:

- (A) Any assessee
- (B) An individual
- (C) An individual or HUF
- (D) Any assessee other than an individual or HUF

[6]

9. व्यापारिक स्टॉक को पूंजी सम्पत्ति में परिवर्तन करने पर

- (A) करमुक्त
- (B) पूंजी लाभ के विषय के संन्दर्भ में
- (C) व्यवसायिक लाभ के दशा में कर संबंधी विषय
- (D) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Conversion of stock in trade into capital asset will be:

- (A) Exempt
- (B) Subject to capital gain tax
- (C) Subject to tax under the head profits or gain of business or profession
- (D) None of the above

10. भारत में आयकर कब से लागू हुआ।

- (A) 1860
- (B) 1960
- (C) 1947
- (D) 1950

Income tax introduced in India -

- (A) 1860
- (B) 1960
- (C) 1947
- (D) 1950

[7]

11. कर निर्धारण अधिकारी किस नियम के तहत कर राहत स्वीकार करता है।

- (A) 7
- (B) 8A
- (C) 21A
- (D) 16 ii

Tax Assessment Officer accepted the tax relief under the rule:

- (A) 7
- (B) 8A
- (C) 21A
- (D) 16 ii

12.आय विवरणी को भरने की पावती है

- (A) ITR-4
- (B) ITR-V
- (C) 26AS
- (D) डाक्यूमेंट्स 269 B

.....is a acknowledgment of filling income tax return-

- (A) ITR-4
- (B) ITR-V
- (C) 26AS
- (D) Documents 269 B

[8]

13. यदि आयकर अधिनियम की धारा 184 की शर्तों की पूर्ति पूरी नहीं होती तो फर्म का कर निर्धारण किया जावेगा:-

- (A) Firm
- (B) AOP
- (C) BOI
- (D) Company

If the conditions of section 184 of Income Tax Act are not fulfilled the firm is assessed as-

- (A) Firm
- (B) AOP
- (C) BOI
- (D) Company

14. धारा 234 (B) संबंधित है-

- (A) करदाता द्वारा देय ब्याज
- (B) अग्रिम कर का भुगतान
- (C) अग्रिम कर के भुगतान में करदाता द्वारा चूक
- (D) अग्रिम कर के विलम्ब पर ब्याज

[9]

Section 234 (B) is related to:

- (A) Interest payable by the assessee
- (B) Payment of advance tax
- (C) Define by the tax payer on payment of advance tax
- (D) Interest on determent of advance tax

15. कर नियोजन में निम्नलिखित का कर दायित्व कम होता है

- (A) एक कम्पनी का
- (B) हिन्दू अविभाजित परिवार
- (C) व्यक्ति का
- (D) करदाता का

Tax planning brings reduction in tax liability of the following:

- (A) A company
- (B) Hindu Undivided Family
- (C) An individual
- (D) As assessee

16. मांग में नोटिस जारी होने के निम्नलिखित दिनों के अंदर अदत्त कर की रकम चुकानी होगी-

- (A) 45 दिन
- (B) 35 दिन
- (C) 30 दिन
- (D) 15 दिन

F - 108

P.T.O.

[10]

Unpaid tax should be paid within the following days from the issue of notice of demand-

- (A) 45 days
- (B) 35 days
- (C) 30 days
- (D) 15 days

17. एकपक्षीय कर निर्धारण को कहते हैं-

- (A) सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण
- (B) नियमित कर निर्धारण
- (C) करदाता की इच्छा के अनुकूल कर निर्धारण
- (D) स्वयं कर निर्धारण

Ex parte assessment is called:

- (A) Best judgment assessment
- (B) Regular assessment
- (C) Assessment according to desire of assessee
- (D) Self assessment

18. स्थाई खाता संख्या न बताने पर किस दर से कर की कटौती की जाती है।

- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%

F - 108

[11]

In case failing in furnishing PAN then tax rate will be?

- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 30%
- (D) 40%

19. 80 PA के अन्तर्गत कटौती पाने का अधिकारी है

- (A) निर्माता कम्पनी
- (B) सहकारी समितियाँ
- (C) व्यक्तियों का संघ
- (D) उपरोक्त सभी

....is entitled to deduction under 80PA

- (A) Manufacturing
- (B) Co-operative society
- (C) A OP
- (D) All of the above

20. कर प्रबंध किया जाता है-

- (A) कर नियोजन से पूर्व
- (B) कर नियोजन के बाद
- (C) कर नियोजन के मध्य
- (D) कभी नहीं

[12]

Tax management is done:

- (A) Before tax planning
- (B) After tax planning
- (C) Middle of tax planning
- (D) Never

खण्ड - ब

Section -B

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

(2 marks each)

नोट : आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

Note : Attempt any 8 questions.

1. करयोग्य आय क्या है?

What is taxable income?

2. फर्म किस अधिनियम में परिभाषित है?

In which act firm is defined?

3. कर नियोजन क्यों करते हैं?

Why tax planning is needed?

4. किस फॉर्म पर रिटर्न फाइल किया जाता है?

In which form return file does?

[13]

5. पूंजी लाभ के प्रकार (नाम) बताइए।

Name capital gains.

6. फर्म पर कर की क्या दर है?

What is the rate of tax in firm?

7. पूंजी हानि को कितने वर्षों तक पूर्ति किया जा सकता है?

Loss under the head of capital loss can be set up for how many years?

8. अग्रिम कर क्या है?

What is advance tax?

9. कर चोरी से आशय?

What is tax evasion?

10. 40 B में क्या है?

What is in 40 B?

खण्ड-स

(Section-C)

(3 marks each)

नोट : कोई आठ प्रश्न हल करने हैं।

Note : Attempt any eight questions.

1. साझेदारी फर्म का कर निर्धारण फर्म की तरह कब किया जाता है?

When is a partnership firm assessed on a firm?

F - 108

P.T.O.

[14]

2. पुस्तक लाभ क्या है?

What is book profit?

3. करारोपण की दृष्टि से फर्म के प्रकार बताइये।

Discuss the kinds of firm regarding taxation.

4. कर में छूट क्या है।

What is rebate in tax?

5. कर अपवंचन एवं बचाव के 2 उदाहरण लिखिए।

Write two example of tax avoidance and tax evasion?

6. लाभांश पॉलिसी क्या है?

What is dividend policy?

7. संविधान चालू आय क्या है?

What is constitution current income?

8. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न फाइलिंग से आप क्या समझते हैं?

What is filing of return in electronic form?

9. धारा 92(3) को समझाइये।

Explain the Section 192(3).

10. विलेटेड रिटर्न क्या है?

What is belated return?

11. उद्गम स्थल पर कर की कटौती का दायित्व कब होता है?

When does the liability to deduct tax at source arise?

F - 108

[15]

12. धारा 89 क्या है?

What is Section 89?

खण्ड-द

(Section-D)

(5 marks each)

नोट : कोई 4 प्रश्न हल करने हैं।

Note : Attempt any 4 questions.

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म की कुल आय रु. 6,00,000 थी जिसमें दो समान साझेदार हैं। साझेदारों की व्यक्तिगत आय (A) रु. 1,30,000 तथा (B) रु. 5,70,000 थी। फर्म तथा साझेदारों द्वारा देय कर की गणना कीजिए।

The total income of a firm of Chartered Accountants which has two equal partners was Rs. 6,00,000 for the year ending 31st March 2021 stood at (A) Rs. 1,30,000 (B) Rs. 5,70,000. Compute the tax payable by the firm and the partner.

2. आयकर वसूली की विभिन्न विधियों को समझाइये।

Explain the various method of recovery of income tax.

3. ऋषी X Ltd. में रु. 60,000 प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत है वे अपनी नौकरी 31.07.2020 को छोड़ देते हैं एवं Y Ltd. में सेवा प्रारम्भ कर देते हैं। जहाँ उन्हें रु0 70,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है यह मानते हुये कि उन्होंने अपनी सारी प्रपत्र वेतन से उद्गम स्थल की कटौती सम्बन्धी Y Ltd. में जमा कर दिया है तथा वे 115 BAC

[16]

विकल्प को नहीं चुन रहे हैं आप X Ltd. एवं Y Ltd. के द्वारा काटी जाने वाले कर की गणना कीजिए।

Rishi was working with X Ltd. on a salary of Rs. 60,000 P.M. He resigned on 31.07.2020 and joined Y Ltd. w.e.f. 1.8.20 on a salary drawn and tax deducted at source by X Ltd. along with a copy of form 16 to Y Ltd. on 1.08.2020 itself Rishi does not opt for the concessional rate of tax under section 115 BAC.

4. अग्रिम आयकर के प्रावधानों को सविस्तार समझाइये।

Discuss the provisions of Income Tax Act relating to advance payment of income tax.